

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...

मैं फरिश्ता सो देवता हूँ..



स
क
ल

Sp

The shield that protects us from all obstacles is "Power to Tolerate"





जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है -
‘बाप से सच्चा बनना।’ सिर्फ ब्रह्मचर्य
धारण करना यह प्यूरिटी की हाइएस्ट
स्टेज नहीं है; लेकिन प्यूरिटी अर्थात्
रीयल्टी अर्थात् सच्चाई। ऐसे सच्ची दिल
वाले दिलवाला बाप के दिलतख्त नशीन
हैं और दिलतख्त नशीन बच्चे ही राज्य
राज्यतख्त नशीन होते हैं।

मधुबन निवासियों के प्रति दादीजी की चाहना

बापदादा- 03-04-2012

दादी कहती थी मेरी यह अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरुषार्थ करना है लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ, मधुबन वालों से। वह क्या चाहती हूँ? एक-एक मधुबनवासी बाप समान बन जाये। वैसे तो सभी को बनना है लेकिन मधुबन विशेष है, मधुबन वालों को दादी से प्यार था, यह दादी कहती थी मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा बाबा ने कहा मम्मा ने किया, यह तो मधुबन वाले जानते ही हैं। ऐसे ही अमृतवेले से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो अगर दादियों से प्यार है, तो यही करके दिखायें, सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावें जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसन्द नहीं हो। यह हमारा सन्देश खास मधुबन वालों को देना।

ओम् शान्ति



ब्राह्मण जीवन के सबसे बड़े 5 पुण्य कर्म।

0१ पवित्रता की धारणा।

0२ संसार की सभी आत्माओं को सुख-शांति
के वायब्रेशन्स देना।

0३ ईश्वरीय सत्य ज्ञान का दान करना।

0४ किसी आत्मा को भगवान से मिला देना।

0५ भगवान के यज्ञ में तन, मन, धन से सहयोग
देना।



कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता।
वह हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं,
वह उनके संस्कार दर्शाता है.....हमारे नहीं।

वह इस समय बीमार हैं, दर्द में हैं।
उनका दर्द अपनाकर बीमार न होना,
उनसे नाराज़ या उदास नहीं होना।

उन पर रहम करना, स्वमान में रहना,
यह हमारे संस्कार दर्शाता है।

BKShivani





Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org